


अतिरिक्त एजेण्डा आईटम संख्या- 1 (जोन-6)


विषय:- सुभाष सिन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना चन्दाबाडी के अनुमोदन के संबंध में। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये:-

1. योजना की सभी आंतरिक सड़कों की चौड़ाई 30' रखी जावे।
2. भूखण्ड संख्या 30 में मजार होने के कारण इसे सुविधा क्षेत्र में रखा जावे।
3. योजना सीमा में दर्शाई गई ओनर्स लैंड को अस्वीकृत करते हुये उसे ओनर्सलैंड अंकित किया जावे।
4. योजना में जिन भूखण्डो पर दुकाने निर्मित है उनका व्यावसायिक गतिविधियां हटने के पश्चात ही नियमन किया जावे।

ज न कम्प
A/P DIP ZONE DC ZONE DTP(D) S1P(D)



KEY PLAN



LOCATION PLAN
AS PER MASTER PLAN / SECTOR PLAN

मास्टर विकास योजना २०११ के अनुसार भू उपयोग भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

	आवासीय व्यावसायिक
१. पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड -	32
२. वार दीवारी निर्मित भूखण्ड -	C.V. 8
३. खाली भूखण्ड -	V 5
कुल भूखण्ड	45

मीके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1	आवासीय	9494.61QYDS	67.00%
2	व्यवसायिक	0.00QYDS	0.00%
3	सड़क	6774.196QYDS	40.73%
4	सुविधा क्षेत्र	364.44QYDS	2.19%
	कुल	16635.24SQYDS	100%

योजना की मीके जांच, सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना २०११ की संशुद्धी भू-उपयोग एवं क्षेत्रफल इत्यादि से संबंधित पूर्ण जांच कर स्थिति योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

C.A. 97/2/856, दिल्ली
नगर नियोजक / वास्तुविद / अभियंता का नाम
हस्ताक्षर / सिम्बल

योजना की भूमि की रजिस्ट्रार ऑफिस में जांच १० की कार्यवाही एवं मीके पर भूमि का प्रमाणिकरण भेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम सुभाष सिन्धु शर्मा नाम
तकनीकी अधिकारी उच्चतम जोन- C.A. 97/2/856

बी०पी०सी / जी० एन० सी० की बैठक संख्या दिनांक
की अनुमति या योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SOCIETY :- SUBASH SINDHI HOUSING CO.E. SOCIETY LTD

NAME OF SCHEME :- CHANDA BARI

ZONE NO: 6 SECTOR NO.

SCALE: 1" = 50' DRG. NO.

ज न कम्प
A.T.P. ZONE D.T.P. S.T.P.